

EPACK DURABLE LIMITED

(Formerly Known as EPACK Durable Private Limited)

Regd. Off.: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar U.P. 201306 Corporate Off.: TR-901, AltF 142 Noida, 9th Floor, Plot Number 21 and 21A, Sector 142, Noida-201304, U.P. CIN: L74999UP2019PLC116048,

Ph. No.: 0120-4522467, Email ID: info ed@epack.in, Website: www.epackdurable.com

To Listing Department BSE Limited ("BSE")

Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 544095 ISIN: INE0G5901015 To Listing Donartm

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited ("NSE")

Exchange Plaza, C-1, Block G Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051

Symbol: EPACK ISIN: INE0G5901015

<u>Subject: Submission of copies of newspaper publication titled 'Notice of the 5th Annual General Meeting and e-voting information'</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspaper advertisements, titled 'Notice of the 5^{th} Annual General Meeting and e-voting information'.

A copy of same shall also be posted on the website of the Company.

We request you to kindly take this on your record and oblige.

Thanking you

For **EPACK Durable Limited**

Esha Gupta Company Secretary and Compliance Officer

Date: August 12, 2024

Place: Noida

Encl.: As above

Add. 1: C - 6 & 7, UPSIDC Industrial Area, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand, India-248011

Add. 2 : Plot No. A1-A2, D6-D7-D8, Elcina Electronics Manufacturing Cluster, Industrial Area, Salarpur, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan-301019

Add. 3: Electronic Manufacturing Cluster, EMC Road, 850, EMC-1st Avenue, Sri City, Cherivi, Sathyavedu Mandal, Sri City, Chittoor, Andhra Pradesh-517646

BUSINESS IS DULL AT BOTH KFC & PIZZA HUT

The sheen's off Sapphire

GEETIKA SRIVASTAVA New Delhi, August 11

THE PAST YEAR has been slow going for Quick Service Restaurants. Business at Sapphire Foods, which runs the KFC and Pizza Hut chains, too has been sluggish as reflected in weak same-storesales (SSS). For the KFC business, the SSS came in at a negative 6% in the June quarter, falling for the third consecutive quarter. For the Pizza Hut business, it was a minus 7%, a fall for the fifth straight quarter.

Even adjusting for a change in the Navratra period this year, the growth was virtually flat. Also, the ADS (average daily sales per store) for KFC fell 12% while for Pizza Hut it was down by about 8%. While the sequential trends were better—a good 17% increase for Pizza Hut---, a recovery is some time away.

As Naveen Trivedi, analyst at Motilal Oswal, observed, the quick-service restaurant (QSR) industry continues to experience weakness in unit economics. "Dine- in is under more pressure than delivery," Trivedi said. This trend was noticeable at KFC with the management also operating delivery channels for more hours each day.

Sanjay Purohit, CEO and MD, acknowledged to analysts that sales trends have been somewhat subdued over the last 6-7 months owing to weak demand and competitive pressures. The company is treading cautiously on the pizza business with just one Pizza Hut store having been added in the six months to June. Some of the impact on spending power, according to Puneet Mansukhani, Partner- Digital Advisory and Retail sector head, KPMG India, can be traced to global economic conditions.

Demand may be muted but a changing ecosystem is also hurting sales at these eateries. With food aggregators having built such enormous reach consumers today have many more options in terms of ordering in. This allows them to order even from smaller restaurants which might not have been possible earlier. As Kunal Vora at BNP Paribas points out, restaurants active with Zomato have increased to 51 times the number of total branded QSR stores in FY24 vs 22 times in FY19.

Anand Ramanathan, Partner, Consumer Products and Retail Sector Leader, Deloitte India, observes that the

HIROAKI OTA, A Japanese psychi-

atrist, called it "Paris Syndrome".

The state of being where tourists

come to Paris with lofty hopes,

expecting it to be a picture of per-

fection, but leave underwhelmed.

letes didn't land on these shores as

tourists. But they will still return

with a lingering sense of disap-

campaign ended with six medals

— one silver and five bronze. There

could be another with an asterisk,

as the Court of Arbitration for

Sport is yet to pronounce its ver-

dict in Vinesh Phogat's plea for a

silver. But there were also six ago-

The country's Paris Olympics


Three weeks ago, India's ath-

MIHIR VASAVDA

Paris, August 11

pointment.





Source: Motilal Oswal research

rapid expansion of food delivery platforms has broadened the customer base, particularly benefitting smaller eateries. "A leading food delivery app has grown its restaurant partners 4x from 61,000 in 2019 to over 2.5 lakh in 2024. Customers have the convenience of variety," he points out, adding that this has led to sales becoming fragmented and in turn dampening busi-

A NEW ECOSYSTEM

AGGREGATORS HAVE

IN WHICH FOOD

BUILT ENORMOUS

REACH IS GIVING

CONSUMERS MANY

MORE OPTIONS TO

ORDER IN

There is also, as KPMG's Man-

what they eat. "Eating habits are changing and if there is a healthier option manywill take it," he says. He added that in India regional preferences are a factor and players need to cater for those tastes as also for an increasing number of vegetarians. The high share of the vegetarian menu helped Pizza Hut during the Navratra period.

ple are becoming more conscious of

FY24

🏿 KFC 🔣 Pizza Hut

Again, the rapid growth in the homegrown startups which are focused on cuisine expertise, pre-

Games progressed. Every medal

had a story. It elicited contrasting

emotions but did one thing: raise

Chateauroux, shooter Manu

Bhaker showed it is possible to win

not one but two medals in a single

campaign. With some luck, it

could have been an unprece-

About 300 km away in Paris,

Neeraj Chopra soared again and

took India to newer territories: fol-

lowing up on the Tokyo gold with

But the country's greatest liv-

In the warm and sunny city of

the bar for India's athletes.

dented hat-trick.

a silver here.

prices has driven up the competition. That is cutting into the margins and affecting the performance of large players. Ramanathan points out that, for example, a burger or pizza from an Indian start-up costs 30-40% less than one from established international chains, while offering a similar culinary experience. "The top players are often unable to give customers the kind of good deals that a single-store restau-

mium packaging and competitive

look at deals than just the brand and suggests pricing could be correlated to the per capita income of the region. "This practice is not uncommon in the US and UK and could help pull in more customers," he said. Ramanathan believes that focusing on value offerings and combos could drive demand. Sapphire is addressing some critical price points including those at ₹99 and ₹149 through specific meals and offerings. KFC launched new burger products and special lunch

rant can", Mansukhani observed.

He believes that while there is pur-

chasing power, there are customers

who cannot afford eating out too often.

"It's possible they may simply order in

on some days because it's less expen-

sive," he says. The situation, he feels, is

such that many customers prefer to

menus at ₹149, ₹199 and ₹249. The company is also toying with the idea of offering coffee and early experiments have begun. "We're trying not to let the macro trends overwhelm us," Purohit observed.

Sapphire is refurbishing many of its outlets to make them attractive to customers. Analysts point out, the company continues to spend good amounts on marketing and advertising, analysts point out, even if it is at the cost of margins. For instance, it has upped the marketing effort and launched product innovations backed by strong media campaigns. It will continue to open more KFC outlets and is on track to double the store count by December on the base of December, 2021.

Deloitte's Ramanathan feels players would need to optimise their delivery strategy to leverage the growth of food delivery platforms while maintaining profitability.

"This would entail finding the right balance between using third-party delivery services and developing their own in-house delivery capabilities," he observed. Even as its operating margins

remain under pressure, Sapphire needs to sustain investments because as the management points out, the current daily sales per store are not enough sufficient to deliver double digit SSS growth. That's something it must strive for.

EPACK

EPACK Durable Limited

(Formerly Known as EPACK Durable Private Limited) Regd. Off.: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar U.P. 201306 Corporate Off.: TR-901, AltF 142 Noida, 9th Floor, Plot Number 21 and 21A, Sector 142, Noida-201304, U.P. Ph. No.: 0120-4522467, Email ID: info_ed@epack.in, Website: www.epackdurable.com, CIN: L74999UP2019PLC116048

NOTICE OF THE 05TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting ("AGM") of EPACK

Durable Limited ("the Company") will be held on Friday, September 06, 2024 at 11:00

A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio

Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR Regulations") the AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without the physical presence of the Members of the In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and the provisions of SEBI LODR Regulations, the Annua

Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Annual Report along with the Notice of AGM will also be made available on the Company's website at www.epackdurable.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") at https://evoting.kfintech.com/. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the AGM

The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In order to receive the Notice of AGM and the Annual Report, Members are requested to register/update their email addresses with the Company by following below

(a) Members holding shares in physical mode may register/ update their email address in prescribed form ISR-1 with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. KFintech. Norms for updation are also available at the website of RTA of the Company at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx#

(b) Members holding shares in Demat mode may register their email address/update Bank account mandate by contacting their respective Depository Participant (DP).

Company Secretary and Compliance Officer

Quarter Ended

30/06/2024 | 30/06/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2024

By order of the Board of Directors For **EPACK Durable Limited**

Esha Gupta

(In Rs. Lakh)

Year ended

EFC (I) Limited

Read. Office: 6th Floor, VB Capitol Building, Range Hill Road, Opp. Hotel Symphony, Bhoslenagar Shivajinagar, Pune-411007 I CIN: L74110PN1984PLC216407 Cont.: 020 3502 6526 | Email ld: compliance@efclimited.in | Website: www.efclimited.in

Date: August 10, 2024

Extract of the Financial Results for the Quarter ended 30 June 2024

Unaudited Unaudited Audited Audited 9,319.80 41,945.98 10,205.30 5,642,14 Total Income from Operations Net Profit (Loss) for the period 2,135.57 296.19 3,199.85 8,097,31 before tax, exceptional and/or Extraordinary items) 2,135.57 296.19 3,199.85 8,097.31 Net Profit/ (Loss) for the period before tax after exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit (Loss) for the period after tax 1,577,14 2,793.61 6,330.40 6,317.27 Total Comprehensive income for the period 1,577.47 317.82 2,780.47 Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)). Equity share capital (of Rs.2/- each) 995.53 772.74 995.53 416,682,22 Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 5.68 3.17 14.06 3.17 4.49 5.68 Key Number of Standalone Financial Results 1,097.24 Total Income from Operations

Net Profit/ (Loss) for the period after tax

The above is an extract of the detailed format of unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the Company: website i.e.www.efclimited.in under Investor Information section and on the stock exchange websites i.e.

388.34

34.02

29.67

The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 10, 2024.

For EFC (I) Limited

Place: Pune Date: August 12, 2024

Net Profit (Loss) for the period before tax

Managing Director (DIN:01733060

218.46

154.84

351.81

253.94

ness at OSRs. sukhani, points out, the fact that peo-

nising fourth-place finishes, more

than ever, to mark the bitter-sweet

campaign that ebbed as the

Badminton to boxing: India leaves Paris with a smile The first, coming from two of India's biggest legends Prakash Padukone and Abhinav Bindra,

As The Indian Express reported

before the Olympics, the Govern-

ment spent ₹72 crore under the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) during the three-year Olympic cycle from Tokyo in Covid-hit 2021 to Paris.

was: spend, but wisely.

That money was spent on customised training programmes, with the athletes getting almost everything they wanted, from a big entourage to specialised coaches to hi-tech equipment.

ing Olympian, at war with his own body, looked tormented that he Last week, Padukone urged the couldn't throw the javelin any Government, the biggest spender, longer. The focus, however, will be and the federations to be a "little on the lessons from each medal firm"with those who don't deliver.

"cannot keep asking for more and more and more". On Saturday, Bindra, who

He also demanded the players

has experienced the era when funds didn't flow so smoothly, said the Olympics aren't a "vending machine" and that the players "can't be wrapped in cotton wool". "We need to understand that

money is only going to be an enabler. Money is not going to get you medals," Bindra told *The* Indian Express.

"It is blood, sweat and tears, hard work and resilience shown on the field of play, which will get you there. And hunger is a very, very important aspect of it. Resources being allocated is only a simple, simple enabler, and you need it."

Paris Olympics: Gold medals worth more than ever



JACOB REID August 11

OLYMPIC GOLD MEDALS are worth more than ever at this year's Paris games, with the raw materials that go into them having the potential to fetch about \$900 each.

The medals contain six grams of gold, the price of which soared to a record in mid-July thanks to centralbank buying, retail interest in China and expectations of easing US monetary policy. Prices are also substantially higher this year for silver, which makes up at least 92.5% of the

weight of gold medals. Even after adjusting for inflation, the value of medals is still the highest ever, with Olympians benefiting from both the sharp rally in bullion

prices and increasingly hefty

In practice, Olympians do not tend to melt or sell their medals, which this year also contain a small piece of the Eiffel Tower. More lucrative are the gifts that countries give winning athletes, which include cash, exemptions from military service and cows.Carlos Yulo, who became the Philippines' first male gold medalist last week, will enjoy a fully furnished condo and a lifetime of free colonoscopies.

Medals that are sold can be worth far more than their metal value. One of Jesse Owens' gold medals from Berlin 1936, when he rebuked Adolf Hitler's attempt to showcase Aryan racial supremacy, fetched \$1.5 million at 2013 **—BLOOMBERG** auction.



Chennai

12 August 2024



Is my city taking proactive steps to tackle climate change?



Keynote Address Dr. PTR

Palanivel Thiaga Rajan Minister for Information Technology & Digital Services, Tamil Nadu



Fireside Chat

K Chandru Retired Judge Madras High Court





4.00₹

Anshul Mishra IAS Member Secretary Chennai Metropolitan Development Authority (CMDA)



Anant Maringanti Executive Director Hyderabad Urban Lab



D. Raghunandan Project Lead Inhaf ClimACT-Chennai



Sabareesh Suresh Manager Climate Action Implementation C40 Cities Climate Leadership Inc.



financialexp.epapr.in

New Delhi

जनसता

क्लासीफाइड

ट्यक्तिगत

I,SUHAIL ALAM,S/O NOOR ALAM ANSARI,R/o-B-274A,Old.No-B-274,Makki Masjid Colony, Madanpur Khadar Part-3, Sarita Vihar, South-Delhi, Delhi-110076, declare that Name of my-mother has been wronglywritten as SONI in my 10th-Class Educational-Documents. The actual name of my mother is SONY KHA-TOON. 0040743312-5

I,Naurang Solanki S/o Hoshiyar Singh R/o H.No.228,Pooth Kalan Village, Delhi-110086, have changed the name of my minor Son Asad aged 13 years to Asad Solanki. 0040743312-3

I,Naresh Kumar,s/o Ajit Kumar,R/o 457-A, Regent Shipra Sun City, Indrapuram, I.E Sahibabad, Ghaziabad-201010,U.P,have changed my name to Naresh Chauhan Permanently. 0040743312-1

I, Jarnail Singh Ahluwalia S/o Teja Singh Ahluwalia R/o PD 10-A,2nd Floor, Malibu town, Sector 47, Gurgaon, declare that my name has been wrongly mentioned as Jarnail Singh in my Pension Payment Order & as J.S. Ahluwalia in my son's birth certificate, my correct name is Jarnail Singh Ahluwalia. 0130044167-1

I, Kushal s/o Ratan Jyoti r/o P-147, Krishan Vihar, Delhi-110085 have changed my name as KUSHAL MEHTA. Correct name of my father is RATANJYOT MEHTA. 0040743181-2

I, Arun Lata W/o Sh. Naresh Kumar Verma R/o B-113, Rail Kunj, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, U.P.-201012 do hereby solemnly inform that in my aadhar card, pan card & voter card my name is written as Arun Lata, in my passport my name is written as Arun Lata Verma, both are one and same person. I will be known as Arun Lata in 0040743313-1 future.

I Valmik S/O, Shankarrao Bangar R/o Plot No 56 Karuna Bhavan Besa Road Padmavati Nagar Nagpur have changed my name to Walmik S/o Shankarrao Bangar. 0040743300-1

I,Amir Shafi,S/O,SHRI SHAFI ULLAH,R/O,A2-1406,JKG-PALM COURT, GAUR CITY-2, GAUTAM **BUDDHA-NAGAR UTTAR** PRADESH-201009, have changed my name to AAMIR SHAFI.Henceforth I would be Known by the name of AAMIR SHAFI, For all, future purposes 0040743312-2

I, Naurang Solanki, S/o Hoshiyar Singh,R/o H.No.228,Pooth Kalan Village, Delhi-110086, have changed the name of my minor Son Arshad aged 09 years to 0040743312-4



EXPRESS EDUCATION



Ashish Kumar Sir Our Classroom Student Public Administration

For UPSC CSE 2025

Fresh Live Online Batch

Starting on 25th August 2024

Call us: 09717310441 Mail us: online@trustias.com Visit us: www.trustias.com



ANTHRO

WE AT VAIDS HAVE DONE IT AGAIN!





Final Selection: 16

Batch Starts: Aug 16 | Admissions Open 250+ Answers Prepared & Evaluated

For Details visit www.vaidsics.com Or Youtube.com/@VaidsICSDelhi | Ph: 9999946748

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service

(M): 9212665841, 9212008155

PICCADILY AGRO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L01115HR1994PLC032244 Registered Office: - Village Bhadson Umri- Indri Road, Tehsil Indri. District Karnal, Haryana – 132117 Email ID: piccadilygroup34@rediffmail.com NOTICE is hereby given that following share certificates issued by the Company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the

Company for issue of duplicate share certificates.

Folio No.		Share	Distinctive No.		No. of	
	Shareholder	Certificate No.	From	То	Shares	
0017113	NARESH CHAND	00162784	052316141	052316940	800	
0017113	NARESH CHAND	00156123	026572271	026572670	400	
0017113	NARESH CHAND	00120403	021933521	021933620	100	
0017113	NARESH CHAND	00120404	021933621	021933720	100	
0017113	NARESH CHAND	00120405	021933721	021933820	100	

0017113 NARESH CHAND 00120406 021933821 021933920 100

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) with the Company ir respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will proceed with issuance of duplicate share

भौतिक अधिग्रहण सूचना

गिटाटा Home Finance निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059 शाखा कार्यालय : तृतीय तल, 302–303, पर्ल बर्ट हाइट्स–एल, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत. निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदृद्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रवत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्दारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र.			मांग सूचना की तिथि /	शाखा
सं.	के नाम / ऋण खाता संख्या		मांग सूचना में राशि (रु.)	का नाम
1.	प्रदीप शर्मा (ऋणकर्ता),	ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "मिगसन रूफ" में आवासीय अपार्टमेंट जो यूनिट नं. एसयूएन	12-01-2024	उत्तरी
	अमित कुमार (सह—ऋणकर्ता),	3—1407, 14वें तल पर, कॉर्पेट क्षेत्रफल 46.75 वर्ग मीटर, खसरा सं. 4, 5 व 51 पर निर्मित, राज नगर एक्स., ग्राम मकरामतपुर सिकरोड परगना जलालाबाद तहसील जनपद	₹.	दिल्ली—पीतम
	सरोज शर्मा (सह–ऋणकर्ता),	गाजियाबाद 1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 में स्थित है (संदर्भ लैन सं.	89,751.3 / —	पुरा–बी
	LHPTU00001521764	LHPTU00001521764)। अधिग्रहण की तिथि : 06-08-2024		
2.	प्रदीप शर्मा (ऋणकर्ता),	ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "मिगुसन रूफ" में आवासीय अपार्टमेंट जो यूनिट नं. एसयूएन	12-01-2024	उत्तरी
	अमित कुमार (सह—ऋणकर्ता),	3—1407, 14वें तल पर, कॉर्पेट क्षेत्रफल 46.75 वर्ग मीटर, खसरा सं. 4, 5 व 51 पर निर्मित, राज नगर एक्स., ग्राम मकरामतपुर सिकरोड परगना जलालाबाद तहसील जनपद	₹.	दिल्ली-पीतम
	सरोज शर्मा (सह–ऋणकर्ता),	गाजियाबाद 1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 में स्थित है (संदर्भ लैन सं.	19,21,438 / —	पुरा–बी
	LHPTU00001521768	LHPTU00001521768)। अधिग्रहण की तिथि : 06—08—2024		
ऊप	ए—वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(र) हों) को एतदद्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभगतान करने के लिए एक 30	दिवसीय सचना दी जात	ती है. अन्यथा

बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा। दिनांक : 12 अगस्त 2024 स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित) सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792 पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई–600031,

दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना

IDFC FIRST

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से उनके द्वारा प्राप्त किये गये स्वर्णाभूषण के बदले में क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि का भुगतान करने की सूचनायें निर्गत की गयी हैं। चूंकि उधारकर्ता सुविधा के अंतर्गत बकाया चुकाने में विफल रहा है अतः हम 20/08/2024 को गिरवी रखे गए स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने के लिए बाध्य हैं। यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी होती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास निम्नलिखित खाते को बिना पूर्व सूचना के नीलामी से हटाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी तिथि बदलने का अधिकार सूरक्षित रखता है।

स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

	77	
ऋण खाता संख्या	ग्राहक का नाम	शाखा का नाम
116909464	सौरभ राज किशोर	विवेक विहार शाखा
140519736	सोनिया सोनी	यमुना विहार शाखा
141003933	आबिद खान	बहादुरगढ़ एमबीएल
141798360	रवि कुमार गिरि	करोल बाग शाखा
144855792	सोनिया कुमार	वसुंधरा गाजियाबाद शाखा
108004398	प्रशांत भार्गव	मथुरा शाखा
109094707	नदीम अहमद	मेरठ बागपत गेट एमबीएल
111789392	भारत शिवरतन	नारनौल ग्रामीण

नीलामी 20 / 08 / 2024 को दोपहर 12:00 से अप. 3:00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net के माध्यम से **ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।** इस प्रकाशन के माध्यम से संबंधित उधारकर्ता को एतदद्वारा निर्धारित नीलामी तिथि से पहले सभी ब्याज और शल्कों के साथ वापस ली गई सविधा की राशि का भगतान करने के लिए अंतिम सचना और अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा आभूषण की नीलामी की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि, यदि समय सीमा के कारण नीलामी उसी दिन पूरी नहीं होती है, तो बैंक अगले 7 दिनों के भीतर समान नियमों और शर्तों पर गिरवी रखे गए स्वर्णाभूषणों की फिर से नीलामी करेगा। यदि ग्राहक की मृत्यू हो गई है तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उसके विधिक उत्तराधिकारियों पर लाग होंगी।

दिनांक : 12/08/2024, स्थान : दिल्ली/राराक्षे

देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम श्री राकेश अग्रवाल

देनदार / व्यक्तियत गारंटर का प्रता

गारटरों के संबंध में आदेश का विवरण

समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य

समाधान प्रोफेशनल का पता और

ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकत है

समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में

उपयोग के लिए पता और ई-मेल

दावें जमा करने की अंतिम तिथि

8. प्रासंगिक प्रपन्न जिनमें दावा दायर किया

समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है ।

देनदार / व्यक्तिगत गारंटर का यता

गारटरों के संबंध में आदेश का विवरण

करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और

ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है

उपयोग के लिए पता और ई-मेल

दावे जमा करने की अंतिम तिथि

8. प्रासंगिक प्रपन्न जिनमें दावा दायर किया

समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है ।

दिनांक: 12.08.2024

समाधान प्रोफेशनल के साथ पश्राचार में

और दिवालियापन प्रारंग तिथि

. समाधान प्रीफेशनल के रूप में कार्य

६ में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और

सार्वजनिक सचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्री राकेश अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड

की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

10-डी, अंडर हिल रोड, सिविल लाइस, दिल्ली-110054

06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)

सी.पी. संख्या (आई.बी.)-918(पी.बी.) / 2022, आदेश दिनांक

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269

8/28, तीसरी मंजिल, बब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग,

8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्युईए, अब्दल अजीज रोड, करोल बाग,

नई दिल्ली -110005. **ईमेल** pg.sunstar@gmail.com

वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269

श्री राकेश अग्रवाल, पीजी ट् सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

पराने सचिवालय के सामने. दिल्ली -110064

एवीएम रेजोल्युशन प्रोफेशनल्स एलएलपी

यहां भी : 6-बी, राजनारायण मार्ग , सिविल लाइस, दिल्ली -110054 यहां भी : 6-बी, जमुना रोब, सिविल लाइस, दिल्ली-110054

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269

8 / 28, तीसरी मजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग,

8 / 28. तीसरी मंजिल, डब्ल्युईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग,

मई दिल्ली -110005. ईमेल : pg.sunstar@gmail.com

94 (eta: https://www.ibbi.gov.irvhome/downloads

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269

नई दिल्ली -110005. **ईमेल** mlvij1956@gmail.com

08.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई)

नई दिल्ली -110005. **ईमेल** : mlvij1956@gmail.com

प्रासंगिक विवरण

मनोहर लाल विज

02 सितंबर 2024

तदवारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या

(आईबी)-918(पीबी) / 2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 की प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम

से, कॉर्चोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेव की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर श्री राकेश अग्रवाल** की दिवालियापन

प्री राकेश अग्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सिर्तबर 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविध्ति संख्या

लेनदार इलेक्टॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, ढाक द्वारा या इलेक्टॉनिक साधनों से अपने दावे

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की घारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्रीमती कविता अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड

की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ

कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / व्यक्तिगत । सी.पी. संख्या (आई.बी.)-921(पी.बी.) / 2022, आदेश दिनांक

एएफए वैध: 30.10.2024 तक

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या

आईबी)-921(पीबी) / 2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक **06 अगस्त 2024** के माध्यम

रो, कॉफोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर, श्रीमती कविता अग्रवाल** की दिवालियापन

धीमती कविता अग्रवाल के लेनदारों की इसके हारा 02 **सितंबर 2024** की या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविध्ि

लेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, ढाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जपने दावे

स्थान : नई दिल्ली श्रीमती कविता अग्रवाल, पीजी ट् सीडी, सनस्टार ओक्स्सीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

फॉर्म संख्या एनसीएलटी ३ए

याचिका का विस्तृत विवरण मानगीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

नई दिल्ली की पीठ के समक्ष, पीठ-॥।

सीपी संख्या ११८ (एनडी)/२०२४

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३१: के मामले में

के मामले में

वनाम

याचिका की सूचना

२०१३ की धारा १३१ के तहत एक याचिका उपर्युक्त याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा २४ मई २०२४ को प्रस्तुत की

गई थी. और उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय केंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच- ॥ के समक्ष

30.09.2024 को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त याचिका का समर्थन या

विटोध करने के इच्छुक है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपने नाम और पते के साथ अपने या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सूचना भेजनी होगी, ताकि याचिका की सुनवाई के लिए

निथरित तिथि से दो दिन पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तक पहंच जाए। जिस भी वजह से वह याचिका

का विरोध करना चाहता है, उस विरोध के आधार या उसके हलफनामें की एक प्रति ऐसी सुचना के साथ

प्रस्तुत की जाएगी। याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर

संख्या ६ में चल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल की प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता हैं ।

दावे के झुठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

कंदन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक:- 10/08/2024

स्थान:- दिल्ली

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़, रा.रा.क्षे. दिल्ली एवं अन्य

उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो इसकी मांग करता है।

मनोहर लाल विज

प्रासंगिक विवरण

देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम श्रीमती कविता अग्रवाल

"प्ररूप-बी"

एएफए वैद्य: 30.10.2024 तक

एवीएम रेजोल्युशन प्रोफेशनल्स एलएलपी



CLASSIFIED AD DEPOT (CAD) Book classified ads at your nearest Express **Group's authorised Classified Ad Depots**

PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024 22090987, 22235837, **PREET VIHAR**: AD BRIDGE COMMU-NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR**: PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206. 25530307, KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777. 9211333777. 9810883377. **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183. 9555945923. MOTI NAGAR: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS. Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908. TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI** : AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT** PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS** NAGAR POLICE STATION) : MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING. Ph.: 9350304609. 7042590693. PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF** SARAI: TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT. KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29)**: RDX ADVERTISING, Ph 9899268321 0120-4315917 NOIDA (SEC. 65) · SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

For CAD enquiries please contact ROHIT JOSHI 9818505947, ABHINAV GUPTA 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

सार्वजनिक सुचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016)

श्री कपिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड

प्रासंगिक विवरण			
1.	देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री कपिल अग्रवाल	
2.	देनदार / व्यक्तिगत मार्स्टर का पता	6-बी, जमुना रोड, सिदिल लाइंस, दिल्ली-110064 यहां भी : 6-बी, राजनारायण मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली -110054	
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / व्यक्तिमत गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण और दिवालियापन प्रारम तिथि	सी.पी. संख्या (आई.बी.)—916 (पी.बी.) / 2022, आदेश दिनांक 06.08.2024 (प्रतिलिपि 08.08.2024 को प्राप्त हुई)	
4	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	मनोहर लाल विज पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 एएकए वैद्य: 30.10.2024 तक	
5.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत हैं	8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल ः mlvij 1956@gmail.com	
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पञ्चचार में उपयोग के लिए यता और ईं-मेल	एवीएम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल वाग, नई दिल्ली –110005. ईमेल : pg.sunstar@gmail.com	
7.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	02 सितंबर 2024	
8.	प्रासंगिक प्रपन्न जिनमें दावा दायर किया जाना है	"प्ररूप-वी" वेद लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads	

सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्या आईबी)-916(पीबी) / 2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 की प्राप्त) में अपने आदेश दिनाक **06 अगस्त 2024** के माध्यम ते. कॉपॉरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार/व्यक्तिगत गारंटर, श्री कपिल अग्रवाल** की दिवालियापन तमाचान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है ।

श्री कपिल अप्रवाल के लेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** को या जससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविध्ति संख्य 6 में उल्लेखित पते पर समाधान प्रोफेशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। नेनदार इलेक्टॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ. डाक द्वारा या इलेक्टॉनिक साधनों से अपने दार्व

वावें कें झुठे वा भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है। मनोहर लाल विज दिनांक: 12,08,2024 पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 स्थान : नई दिल्ली

श्री कपिल अग्रवाल, पीजी ट सीडी, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

सार्वजनिक सुचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 (1) और (2) के तहत, 2016) श्री नरेश कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड

की देनदार/व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ प्रासंगिक विवरण देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम श्री नरेश कमार अग्रवाल 24-बी, अलीपुर रोड, सिविल लाइंस, पुराने सिववालय देनदार / व्यक्तिगत गारंटर का पता

यहां भी: 10-की, अंबर हिल रोब, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / व्यक्तिगत सी.पी. संख्या (आई.बी.)-920(पी.बी.) / 2022, आदेश दिनांक गारंटरों के संबंध में आदेश का विवरण 06.08.2024 (प्रतिलिपि 09.08.2024 को प्राप्त हुई) और दिवालियापन प्रारंभ तिथि समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 करने वाले दिवाला पेशेंदर का नाम और पंजीकरण संख्य 8 / 28, तीसरी मंजिल, ढब्ल्यूईए; अन्दुल अजीज रोड, करोल बाग, मई दिल्ली –110005. **ईमेल** : mlvij1956@gmail.com . समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकत है समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में एवीएम रेजोल्यशन प्रोफेशनल्स एलएलपी उपयोग के लिए पता और ई-मेल 8/28, तीसरी मंजिल, डब्ल्युईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005. **इमेल** : pg.sunstar@gmail.com दावे जमा करने की अतिम तिथि "प्ररूप-बी" प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया

मुचेत किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, प्रधान पीठ ने सीपी संख्य (आईबी)—920(पीबी) / 2022 (आदेश की प्रति 09 अगस्त 2024 को प्राप्त) में अपने आदेश दिनांक 06 अगस्त 2024 के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार, सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड की **देनदार / व्यक्तिगत गारंटर: श्री नरेश कुमार अग्रवाल** की दिवालियापन समाद्यान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है ।

वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

indianexpress.com

भी नरेश कुमार अग्रवाल के सेनदारों को इसके द्वारा **02 सितंबर 2024** की या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे प्रविद्धि संख्या ६ में उत्लेखित पते पर समाधान प्रोफंशनल को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है । नेनदार इलेक्ट्रॉनिक साधनों से या व्यक्तिगत तरीके से प्रमाण के साथ, दाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से अपने दावे

स्थान : नई दिल्ली भी नरेश कुमार अग्रवाल, पीजी ट्र सीढी, सनस्टार ओक्स्सीज लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

दावे के झुठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है। मनोहर लाल विज पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01480/2018-2019/12269 दिनाक : 12.08.2024

....याचिकाकर्ता/आवेदक ..प्रतिवादी 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संशोधन के लिए कंपनी अधिनियम

मनोहर लाल विज

जाना है



The Indian Express. For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS

Condern MODERN INSULATORS LIMITED

CIN: L31300RJ1982PLC002460 Regd. Office: Talheti, Village Karoli, Tehsil Abu Road, Dist. Sirohi- 307510. Tel.: 02974-228044

Email Id: compliance@moderninsulators.com, Website: www.moderninsulators.com Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the

Quarter ended 30th June, 2024 (# In Lacs except EPS)

Particulars	Q	Year Ended		
	30.06.2024 (Reviewed)		PAGE 174-51000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 0000	31.03.2024 (Audited)
Total Income from Operations	10382.45	14021.91	8975.13	44329.33
Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	789.94	1543.71	348.51	3508.42
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	779.73	1622.61	395.51	3649.13
Total Comprehensive Income for the period	778.77	1617.95	396.00	UNIONAL VISIONAL
(Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	ANVINOUS.		200 900 90 1940	
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	:B:		1,25	1654
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)	592386	20000	10/8:200	6,000,00
(a) Basic	1,65	3.44	0.84	7.74
(b) Diluted	1.65	3.44	0.84	7.74

Quarter ended 30th June, 2024 (# In Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	30.06.2024 (Reviewed)	31.03.2023 (Audited)	30.06.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	
Total Income from Operations	10380.88	14021.91	8975.13	44330.04	
Net Profit (Loss) for the period before Tax	693.45	1527.42	334.35	3465.62	
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	755.42	1604.19	381.35	3604.20	
Total Comprehensive Income for the period	754.46	1599.53	381.84	3599.96	
(Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax)	-15.5.5.00	WW. 24-274VVV	test trib	10000-0000	
Equity Share Capital	4714.39	4714.39	4714.39	4714.39	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	28	8	33	10.53	
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)	9000	233680	dance	50-500	
(a) Basic	1.6	3.4	0.81	7.65	
(b) Diluted	1.6	3.4	0.81	7.65	

Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 10, 2024 The above results is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarte ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of he Financial Results are available on Stock Exchange website www.bseindia.com and on he Company's website www.moderninsulators.com

Place: Abu Road

Date: 10th August, 2024

For Modern Insulators Limited Shreyans Ranka Director DIN: 06470710



EPACK Durable Limited

Formeriv Known as EPACK Durable Private Limited Regd. Off.: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar U.P. 201306 Corporate Off.: TR-901, AltF 142 Noida, 9th Floor, Plot Number 21 and 21A, Sector 142, Noida-201304, U.P. Ph. No.: 0120-4522467, Email ID: info_ed@epack.in, Website: www.epackdurable.com, CIN: L74999UP2019PLC116048

NOTICE OF THE 05TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting ("AGM") of EPACK Durable Limited ("the Company") will be held on Friday, September 06, 2024 at 11:00 A.M. Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, followed by General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR Regulations") the AGM of the Company will be held through VC/OAVM Facility, without the physical presence of the Members of the Company at a common venue.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 and the provisions of SEBI LODR Regulations, the Annual Report for the Financial Year 2023-24 ("Annual Report") along with the Notice of AGM will be sent only through electronic mode to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Annual Report along with the Notice of AGM will also be made available on the Company's website at www.epackdurable.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and also on the website of KFin Technologies Limited ("KFintech") at https://evoting.kfintech.com/. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM and the detailed procedures for e-voting will be provided in the Notice of the AGM. The Company will be providing to its Members the remote e-voting facility ("remote

e-voting") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting /e-voting will be provided in the Notice of the AGM. Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their email addresses are requested to refer to the Notice of the AGM for the process to be followed for obtaining the User ID and password for casting the vote through remote e-voting. In order to receive the Notice of AGM and the Annual Report, Members are requested

to register/update their email addresses with the Company by following below instructions:

(a) Members holding shares in physical mode may register/ update their email address in prescribed form ISR-1 with the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. KFintech. Norms for updation are also available at the website of RTA of the Company at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx#. (b) Members holding shares in Demat mode may register their email address/update

Bank account mandate by contacting their respective Depository Participant (DP).

By order of the Board of Directors For **EPACK Durable Limited**

Place: Noida Esha Gupta Date: August 10, 2024 Company Secretary and Compliance Officer

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत] पेसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ कॉर्पीरेट ऋणधारक का नाम पेसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड 2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि 25.07.2022 3. वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी)-निगमित/पंजीकृत है 4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का U74999DL2022FTC402274 सीमित दायित्व पहचान संख्या 5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा लेवल 15, आईडब्ल्यूजी रेगस एरोस कॉर्पोरेट टावर्स, प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019, भारत 6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ 8 अगस्त, 2024 परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नाम: अरुण गप्ता, पंजी, पता: एस-34, एलजीएफ, नम्बर तथा पंजीकरण संख्या ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

पंजी. ईमेल आईडी: arungupta2211@gmail.com पत्राचार का ईमेल आईडी: paysend.vol.liq@gmail.com टेलीफोन नं.: 011-41066313 आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095 एएफए नं. AA2/10095/02/221124/203023

8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

स्थानः नर्ड दिल्ली

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है ''पेसैन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड'' ने गुरुवार, 8 अगस्त, 2024 को स्वैच्छिक परिसमापन शरू किया है जो क्रेडीटरों की स्वीकृति के अधीन है।

एतदृद्वारा ''पैसेन्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड'' के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. ७ में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 7 सितम्बर, 2024 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत. डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का प्रमाण दिवाला तथा दिवालिया संहिता. 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट दावे के समर्थन में दस्तावेजीय प्रमाण के साथ विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किया जायेगा। संबंधित प्रपत्र तथा उदघोषणा वेबसाईट अर्थात www.ibbi.gov.in

7 सितम्बर, 2024

से डाउनलोड की जा सकती है। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा। तिथि: 12 अगस्त. 2024

अरुण गुप्ता परिसमापक

www.readwhere.com

(हस्ता/-)

अवनीश कुमार

(याचिकाकर्ता के वकील)

वी.जेड मार्ग, नई दिल्ली-110002

२०७, हंस भवन, विंग-1,